



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 90] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 1973/वैशाख 6, 1895

No. 90] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 26, 1973/VAISAKHA 6, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 26th April 1973

G.S.R. 204(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) read with sub-section (9), of section 6 of the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 (15 of 1973), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines, Department of Mines, No. G.S.R. 52 (E), dated the 8th February, 1973.

[No. 101(8)/73-C.II.]

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1973

सा० का० नि० 204(अ).—कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) की धारा 6 की उपधारा (9) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 52 (ई), तारीख 8 फरवरी, 1973 को पुनः द्वारा विखण्डित करती है।

[सं० 101(8)/73-को० 2]

G.S.R. 205(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 (15 of 1973), and in supersession of all previous notifications relating to the appointment of Custodian in relation to the coal mines specified in Parts A, B and C of the Table below, the Central Government hereby appoints, with immediate effect, the Bharat Coking Coal Limited, a Government Company, as the Custodian of the coal mines specified in the Table below :—

TABLE
PART A

Coal Mines specified against serial numbers 27 to 164 (both inclusive), 171 and 204 to 209 (both inclusive), of the Schedule to the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973.

PART B

Coal mines specified against serial numbers 470 to 482 (both inclusive) of the Table below the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines, Department of Mines, No. G.S.R. 53 (E), dated the 8th February, 1973.

PART C

Coal mines specified against serial numbers 17 to 41 (both inclusive) of the Table below the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines Department of Mines, No. G.S.R. 158(E), dated the 6th March, 1973.

[No. 101(8)/73-CII.]

सा० का० नि० 205 (अ).—कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और नीचे दी गई शारणी के भाग क, ख और ग में चिनिदिष्ट कोयला खानों के संबंध में अभिरक्षक की नियुक्ति में संबंधित समस्त पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को, अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्र सरकार भारत कोकिंग कोल

लिमिटेड, सरकारी कम्पनी, को तत्काल से निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट कोयला खानों के अभिरक्षक के रूप में नियुक्त करती है :—

सारणी

भाग—क

कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1973 की अनुसूची के क्रम सं० 27 से 164 (दानां को सम्मिलित कर), 171 और 204 से 209 (दोनों को सम्मिलित कर) के समक्ष विनिर्दिष्ट कोयला खान ।

भाग—ख

भारत सरकार, इस्पात और खान मन्त्रालय, खान विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 53(ई), तारीख 8 फरवरी, 1973 के नीचे दी गई सारणी के क्रम सं० 470 से 482 (दोनों को सम्मिलित कर) के समक्ष विनिर्दिष्ट कोयला खानें ।

भाग—ग

भारत सरकार, इस्पात और खान मन्त्रालय, खान विभाग की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 158 (ई), तारीख 6 मार्च, 1973 के नीचे दी गई सारणी के क्रम सं० 17 से 41 (दोनों को सम्मिलित कर) के समक्ष विनिर्दिष्ट कोयला खानें ।

[सं० 101(8)/73—कोयला II]

ORDERS

New Delhi, the 26th April 1973

G.S.R. 206(E).—Whereas the existence of coal in the mines specified in the Table below has come to the knowledge of the Central Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section(2) of section 3 of the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 (15 of 1973), the Central Government hereby makes a declaration that the mines specified in the Table below contain coal.

2. The Coal mines specified in the Table below are in addition to those specified in the notifications of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. G.S.R. 53(E) and 158(E) dated 8th February, and 6th March, 1973 respectively.

TABLE

Sl. No.	Name and address of Mine	Name and address of owner
BIHAR		
<i>Mugma Coalfield</i>		
1	Chattabari	M/s. New Chattabari Coal Company Limited Post Office Chirkunda, District Dhanbad.
2	West Barakar	
<i>Santhal Pargana Coalfield</i>		
3	Gandharb	Shri Tibriwal, Post Office Deoghar.
4	Jayanti Central	Shri O.P. Santhalia, 16, India Exchange Place, Calcutta-1.
5	Jayanti Khas	Shri Saligram Prasad Singh, Post Office Madhub- pur.
6	Jilwari No. 7	Shri Jagannath Prasad Bhagat, Post Office Sarauni,
7	North Saharjuri	Shri A.P. Singh and others, Post Office Kukraha.
8	Phulberia	Shri M.P. Marwari, Post Office Mahajama.
MADHYA PRADESH		
<i>Pench Coalfield</i>		
9	Datla East	M/s. Amalgamated Coalfields Limited, Post Office, Parasia, District Chhindwara.
<i>Raigarh Coalfield</i>		
10	Dumnara	Shri J. K. Poddar, 32, Wardha Road, Nagpur.
MAHARASHTRA		
<i>Kamptee Coalfield</i>		
11	Inder	M/s Oriental Coal Company Limited, 25, Bra- bourne Road, Calcutta-1.

[No. C II-100(1)/73]

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1973

सा० का० नि० 206(अ).—यतः निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट खानों में कोयले की विद्यमानता केन्द्रीय सरकार की जानकारी में आई है।

अतः अब, कोयला खान (प्रबंध ग्रहण) अधिनियम 1973 (1973 का 15) की धारा 3 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषणा करती है कि निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट खानों कोयला अन्तर्विष्ट करती है।

2. निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट कोयला खाने, भारत सरकार के इस्पात और खान मन्त्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सख्या सा०का०नि० 53(अ) तारीख 8 फरवरी, 1973 और सा० का० नि० 158 (अ), तारीख 6 मार्च, 1973 में विनिर्दिष्ट खानों से अतिरिक्त है।

सारणी

क्रम सं०	खान का नाम और पता	स्वामी का नाम और पता
(1)	(2)	(3)
बिहार		
मुंगमा कोलफील्ड		
1	बस्तावार	मैसर्स न्यू चत्तावार कोल कम्पनी लिमिटेड, डाकघर चिरकुंडा, जिला धनबाद ।
2	बैस्ट बाराकर	
संथास परगना कोलफील्ड		
3	गांधर्व	श्री टिन्नीवाल, डाकघर, देवघर ।
4	जयंती सैन्दूल	श्री श्री० पी० सथलिया, 16, इडिया एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता-1
5	जयंती खास	श्री सलिंगराम प्रसाद सिंह, डाकघर, मधुबपुर ।
6	जिलवाड़ी संख्या 7	श्री जगन्नाथ प्रसाद भगत, डाकघर, सरौनी ।
7	नार्थ साहरजुरी	श्री ए०पी० सिंह और अन्य, डाकघर, कुकराहा ।
8	फुलबेरिया	श्री एम० पी० मारवाड़ी, डाकघर, महाजामा ।
मध्य प्रदेश		
पेच कोलफील्ड		
9	डाटला ईस्ट	मैसर्स भ्रमलगामेडेड कोलफील्डस लिमिटेड, डाकघर, पारासिया, जिला छिंदवाड़ा ।
रायगढ़ कोलफील्ड		
10	दुसनारा	श्री जे० के० पोद्दार, 32, बाधी रोड, नागपुर ।
महाराष्ट्र		
कॉम्पटी कोलफील्ड		
11	इन्द्र	मैसर्स प्रोरिएण्टल कोल कम्पनी लिमिटेड, 25, ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता-1

G.S.R. 207(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Coal Mines (Taking Over of Management) Act, 1973 (15 of 1973), and in partial modification of the Table appended to the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines) No. G.S.R. 53(E), dated the 8th February, 1973, the Central Government hereby cancels, with immediate effect, the entries in respect of the coal mines against serial numbers 475, 499, 510, 526, 530, 532, 533, 534, 539, 540, 543, 544, 547, 552, 556, 560, 566, 569, 572, 574, 579, 583, 587, 590, 594, 595, 596, 597, 599, 609, 611, 612, 618, 619, 626 and 628 specified in the said Table.

[No. CII-100(1)/73]

S. B. LAL, Jt. Secy.

सा० का० नि० 207 (अ).—कोयला खान (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1973 (1973 का 15) की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के इस्पात और खान मंत्रालय (खान विभाग) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 53 (ई), तारीख, 8 फरवरी, 1973 के माध्यम से सारणी के आंशिक उपांतरण में, केन्द्रीय सरकार उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट क्रम सं० 475, 499, 510, 526, 530, 532, 533, 534, 539, 540, 543, 544, 547, 552, 556, 560, 566, 569, 572, 574, 579, 583, 587, 590, 594, 595, 596, 597, 599, 609, 611, 612, 618, 619, 626 और 628 के समक्ष कोयला खानों के बारे में की प्रविष्टियों को तत्काल से एतद्द्वारा रद्द करती है ।

[सं० को० II-100(1)/73]

अरुण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव ।